

Think  
IAS...  




 Think  
Drishti

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

# जीव विज्ञान

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (*Distance Learning Programme*)

Code: CSP05



संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

# जीव विज्ञान



641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

दूरभाष : 8750187501, 011-47532596

टोल फ्री : 1800-121-6260

Web : [www.drishtiias.com](http://www.drishtiias.com)

E-mail : [online@groupdrishti.com](mailto:online@groupdrishti.com)

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिए निम्नलिखित पेज को “like” करें

[www.facebook.com/drishtithevisionfoundation](https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation)

[www.twitter.com/drishtiias](https://www.twitter.com/drishtiias)

1. जीव एवं उनका वर्गीकरण	5-23
2. कोशिका विज्ञान	24-38
3. ऊतक	39-55
4. पोषण	56-65
5. मानव शरीर के तंत्र	66-127
6. मानव स्वास्थ्य और रोग	128-193
7. आनुवंशिकी एवं जैव विकास	194-205
8. पादप कार्यिकी	206-232

अध्याय  
1

# जीव एवं उनका वर्गीकरण (Organism and their Classification)

## 1.1 जीव

## 1.2 जैविक समुदाय का वर्गीकरण

विज्ञान की वह शाखा, जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है अर्थात् जीवधारियों का विज्ञान ही जीव विज्ञान है।

‘जीव विज्ञान’ (Biology) शब्द की उत्पत्ति Bios = Life (जीवन) और Logos = Study (अध्ययन) से हुई है, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क (फ्राँस) व ट्रैविरेनस (र्जमनी) ने किया था। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में अरस्तू ने स्थापित किया था। इनके द्वारा किये गए कई महत्वपूर्ण अध्ययनों के कारण इन्हें ‘जीव विज्ञान का जनक’ कहा जाता है।

चूँकि सजीवों के दो मुख्य प्रकार हैं—पादप एवं जंतु, अतः जीव विज्ञान की भी दो मुख्य उप-शाखाएँ हैं—

(i) जंतु विज्ञान (Zoology)

(ii) वनस्पति विज्ञान (Botany)

अरस्तू को ‘जंतु विज्ञान का जनक’ (Father of Zoology) और पियोफ्रेस्टस को ‘वनस्पति विज्ञान का जनक’ (Father of Botany) कहा जाता है। इसी क्रम में विलियम रॉक्सबर्ग को ‘भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक’ (Father of Indian Botany) कहा जाता है।

वर्तमान में नई-नई खोजों और नई तकनीकों एवं उपकरणों के विकास के कारण जीव विज्ञान की भी कई नई शाखाएँ विकसित हुई हैं। इन सभी शाखाओं को हम निम्नलिखित रूप में विभाजित करते हैं—

## 1.1 जीव (Organism)

जीव विज्ञान में सर्वप्रथम हमें इस प्रश्न से जूझना पड़ता है कि वह कौन-से मूलभूत अंतर हैं जो सजीव और निर्जीव में विभेद करते हैं? वास्तव में जीव की एक सामान्य व्यापक परिभाषा प्रस्तुत करना कठिन कार्य है, फिर भी निम्नलिखित गुणों के आधार पर सजीवों को निर्जीवों से विभेदित किया जा सकता है—

- **जीवद्रव्य (Protoplasm):** जीवद्रव्य के बिना जीवन असंभव है। हक्सले ने इसे ‘जीवन का भौतिक आधार’ माना है। जीवद्रव्य में लागभग 90% जल, 7% प्रोटीन, 2% कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं।
- **कोशिकीय संरचना (Cellular Structure):** सभी सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ‘कोशिका’ है। जीव एककोशिकीय (Unicellular) हो या बहुकोशिकीय (Multicellular), उसके शरीर व क्रियाओं की इकाई कोशिका है।
- **निश्चित जीवनचक्र (Definite Life Cycle):** सभी सजीवों का जीवन— (a) जन्म, (b) वृद्धि, (c) प्रजनन और (d) मृत्यु इन घटनाओं में ही पूर्ण होता है।
- **उपापचय (Metabolism):** जीवन को पूर्ण करने के लिये सजीवों में होने वाली सभी जैव-रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचयी क्रियाएँ कहा जाता है। उपापचयी क्रियाएँ दो प्रकार की होती हैं—
  - ◆ **उपचयन (Anabolism):** इन क्रियाओं के द्वारा सजीवों के शरीर में सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है, जैसे— वृद्धि।
  - ◆ **अपचयन (Catabolism):** इन क्रियाओं के द्वारा सजीवों के शरीर में जटिल अणु टूटकर सरल अणुओं का निर्माण करते हैं तथा ऊर्जा को मुक्त करते हैं, जैसे— श्वसन (Respiration)।
- **प्रजनन (Reproduction):** सजीवों द्वारा अपने जैसे ही समान जीवों को जन्म देने की क्षमता प्रजनन कहलाती है। यह जीवों का सर्वप्रमुख गुण है।
- **गति (Movement):** गति करना सजीवों का मुख्य गुण होता है।
- **अनुक्रियता (Responsiveness):** जीवधारी सामान्यतः उद्दीपन के प्रति अनुक्रियाशील होते हैं, जैसे— जड़ें धरती की तरफ मुड़ती हैं और तना सूर्य की तरफ, ह्युइ-मुई का पौधा छूने पर सिकुड़ जाता है तथा कुत्ता अपने मालिक को देखकर दुम हिलाता है। इस प्रकार की अनुक्रिया निर्जीवों में नहीं देखी जाती।

### परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

- वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति (Species) है।
- कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है।
- कैरोलस लीनियस को वर्गिकी का पिता कहा जाता है।
- ब्रायोफाइटा को 'पादप वर्ग का उभयचर' कहते हैं।
- 'अल्फाल्फा' एक प्रकार की घास है।
- जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे नगनबीजी होते हैं अर्थात् इनके बीज फलों के अंदर नहीं होते।
- थैलोफाइटा वर्ग के पौधे मुख्यतः जलीय पादप होते हैं।
- टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है।
- आर्थोपोडा संघ जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है।
- पोरीफेरा संघ के जीवों को सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है।
- मोलस्का वर्ग के जीवधारी द्विपाश्वर्सममित होते हैं।
- इकाइनोडर्मेटा जंतुओं में विशिष्ट जल संवहन नालतंत्र पाया जाता है।
- द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कैरोलस लीनियस है।
- साइनोबैक्टीरिया को प्रथम प्रकाश-संश्लेषी जीव माना जाता है।
- वाइरस न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं।
- डब्ल्यू.एम. स्टैनले को वाइरस के क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले पृथक् करने का श्रेय प्राप्त है।
- चपटे कृमि, सीलेट्रेटा, पोरीफेरा एवं प्रोटोज़ोआ वर्ग के जंतुओं में देहगुहा नहीं पाई जाती है।
- काइटिन युक्त बाह्य कंकाल कीटों में पाया जाता है।
- 'सिस्टेमा नेचूरी' नामक पुस्तक के लेखक 'कैरोलस लीनियस' हैं।
- हाइड्रा में बिना मरिंस्टक का तंत्रिका तंत्र होता है।
- क्षारीय मृदा में हैलोफाइट्स वर्ग के पौधे अच्छी वृद्धि करते हैं।
- थैलोफाइटा को 'पादप वर्ग का उभयचर' भी कहा जाता है।
- हाइड्रा में रुधिर नहीं होता, फिर भी वह श्वसन करता है।
- आर्थोपोडा में काइटिन युक्त उपचर्म का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है।
- मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रुधिर हीमोसायनिन के कारण होता है।
- समुद्री घोड़ा/सी हॉर्स मत्स्य वर्ग के उपवर्ग ऑस्टिक्थोज का प्राणी है। इसका अंतःकंकाल अस्थिल (Bony) होता है। इनका हृदय दो प्रकोष्ठों का होता है तथा यह असमतापी होता है।

### बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

**UPSC (Pre) 2009**

1. समुद्री कच्छपों की कुछ जातियाँ शाकभक्षी होती हैं।
2. मछली की कुछ जातियाँ शाकभक्षी होती हैं।
3. समुद्री स्तनपायियों की कुछ जातियाँ शाकभक्षी होती हैं।
4. साँपों की कुछ जातियाँ सजीवप्रजक होती हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 3      (b) केवल 2, 3 और 4

(c) केवल 2 और 4      (d) 1, 2, 3 और 4

2. निम्नलिखित में से कौन-सा एक जीव, अन्य तीन जीवों के वर्ग का नहीं है?

**UPSC (Pre) 2014**

- (a) केकड़ी
- (b) बरूथी
- (c) बिच्छू
- (d) मकड़ी

3. निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है, जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है?
- UPSC (Pre) 2008
- (a) व्याध पतंग (ड्रैगन फ्लाई)  
 (b) मधुमक्खी  
 (c) मकड़ी  
 (d) गर्त पृताकु (पिट वाइपर)
4. निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता?
- UPSC (Pre) 2008
- (a) एकिङ्ना (b) कंगारू  
 (c) सेही (d) व्हेल
5. तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है?
- UPSC (Pre) 2008
- (a) केकड़ा (b) डॉग फिश  
 (c) गैंवुसिया फिश (d) घोंघा
6. निम्नलिखित में से किस सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं?
- UPSC (Pre) 2008
- (a) करैत (b) रसल सर्प  
 (c) रैटल सर्प (d) नागराज
7. निम्नलिखित में से कौन सा एक कपि नहीं है?
- UPSC (Pre) 2008
- (a) गिबन (b) गोरिल्ला  
 (c) लंगूर (d) ऑरेंग उटैन
8. अधिकांश कीट (Insects) श्वसन कैसे करते हैं?
- UPSC (Pre) 2007
- (a) त्वचा (Skin) से  
 (b) क्लोम (Gills) से  
 (c) फेफड़ों (Lungs) से  
 (d) वातक तंत्र (Tracheal system) से
9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
1. अरस्तू को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है।
  2. अरस्तू ने 'पाँच जगत् का वर्गीकरण' दिया था।
  3. मोनेरा एककोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
- (a) केवल 1 (b) केवल 2  
 (c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2 और 3
10. निम्नलिखित में से कौन-सा/से 'प्रोटिस्टा जगत्' का लक्षण नहीं है-
1. एककोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है।
  2. ये केवल विषमपोषी जीव हैं।
  3. ये केवल मृत जीवों पर पाए जाते हैं।
- कूट:
- (a) केवल 1 और 2  
 (b) केवल 2 और 3  
 (c) 1, 2 और 3  
 (d) इनमें से कोई नहीं।
11. निम्नलिखित में से क्या कवक जगत् का/के लक्षण है/हैं?
1. यह विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव है।
  2. इन्हें मृतजीवी भी कहा जाता है।
  3. कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है।
- कूट:
- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3  
 (c) 1, 2 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं।
12. पादप जगत् के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
1. यह कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है।
  2. इसके सदस्य स्वपोषी होते हैं।
  3. इनमें रिक्तिका न के बराबर पाई जाती है।
- कूट:
- (a) केवल 1  
 (b) केवल 1 और 2  
 (c) 1, 2 और 3  
 (d) इनमें से कोई नहीं।
13. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
1. थैलोफाइट्स के शरीर में सभी घटक पूर्णरूपेण विभेदित नहीं होते।
  2. ब्रायोफाइट्स स्थल व जल दोनों में पाए जाते हैं।
  3. टैरिडोफाइट्स में संवहनी ऊतक उपस्थित होते हैं।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
- (a) केवल 1 और 2  
 (b) केवल 2 और 3  
 (c) 1, 2 और 3  
 (d) इनमें से कोई नहीं।

14. एंजियोस्पर्मस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार  
एंजियोस्पर्म कीजिये-
- इन पौधों में बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं।
  - इन्हें पुष्टि पादप कहते हैं।
  - पाइनस तथा साइक्स इसका उदाहरण है।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
- केवल 1
  - केवल 1 और 2
  - 1, 2 और 3
  - इनमें से कोई नहीं।
15. पोरीफेरा संघ के जीवों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
- इनका शरीर छिद्रयुक्त होता है।
  - इसमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता है।
- उपर्युक्त में कौन सा/से सत्य कथन है/हैं?
- केवल 1
  - केवल 2
  - 1 और 2 दोनों
  - इनमें से कोई नहीं।
16. निम्नलिखित में से क्या निमेटोडा संघ को नहीं दर्शाता है?
- ये द्विपार्श्वसमिति वाले त्रिकोरक जीव हैं।
  - इनका शरीर चपटा होता है।
  - ये अधिकांशतः परजीवी होते हैं।
  - उदाहरण-पिन कृमि, गोल कृमि।
17. आर्थोपोडा संघ के जीवों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
- इनमें सर्धियुक्त पैर पाए जाते हैं।
  - यह जंतु जगत् का सबसे बड़ा संघ है।
  - इनमें रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता बल्कि देहगुहा ही रक्त से भरी रहती है।

- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
- केवल 1
  - केवल 1 और 2
  - 1, 2 और 3
  - इनमें से कोई नहीं।
18. एनिलिडा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
- ये वास्तविक देहगुहा वाले द्विपार्श्वसमिति एवं त्रिकोरक जीव हैं।
  - इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन एवं तंत्रिका तंत्र उपस्थित होते हैं।
  - इनमें त्वचा रुँटीली होती है।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?
- केवल 1 और 2
  - केवल 2 और 3
  - 1, 2 और 3
  - केवल 3
19. कशोरुकीय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
- यह सर्वाधिक विकसित जंतुओं का वर्ग है।
  - इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड पाया जाता है।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
- केवल 1
  - केवल 2
  - केवल 1 और 2
  - न तो 1 और न ही 2

### उत्तरमाला

- |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. (d)  | 2. (a)  | 3. (c)  | 4. (a)  | 5. (c)  | 6. (d)  | 7. (c)  | 8. (d)  | 9. (c)  | 10. (b) |
| 11. (c) | 12. (b) | 13. (c) | 14. (b) | 15. (c) | 16. (b) | 17. (c) | 18. (d) | 19. (c) |         |

### 2.1 कोशिका

### 2.2 कोशिका विभाजन

जीव विज्ञान की वह शाखा, जिसके अंतर्गत कोशिका की संरचना एवं क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, 'कोशिका विज्ञान' (Cytology) कहलाता है।

## 2.1 कोशिका (Cell)

- कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है।
- प्रत्येक जीवधारी (पौधे व जंतु) का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है।
- कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक (1665) ने की। स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कॉर्क का अध्ययन करने पर उन्होंने कुछ खोखले कक्षकों को देखा, जिन्हें उन्होंने कोशिका (Cell) कहा।
- रॉबर्ट हुक ने अपनी कोशिका संबंधी खोजों का वर्णन 'माइक्रोग्राफिया' (Micrographia) पुस्तक में किया है।
- रॉबर्ट हुक ने जिन कक्षकों को कोशिका कहा था, वे वास्तव में मृत कोशिका भित्ति (Dead Cell Wall) थीं।
- सर्वप्रथम जीवित तथा मुक्त कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक (Leeuwenhoek) ने की थी।

## कोशिका सिद्धांत (Cell Theory)

कोशिका सिद्धांत जर्मन बनस्पतिविज्ञानी (German Botanist) श्लाइडेन तथा जर्मन जंतुविज्ञानी (German Zoologist) श्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं—

- प्रत्येक जीव का शरीर एक कोशिका (एक कोशिकीय) या कई कोशिकाओं (बहुकोशिकीय) से मिलकर बना है।
- प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है।
- सभी कोशिकाओं की मूल संरचना व रासायनिक संगठन समान होते हैं।
- प्रत्येक जीवधारी अपनी कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं व पारस्परिक संबंध के कारण ही जीवित (सजीव) रह पाता है।

## कोशिका सिद्धांत का अपवाद (Exception of Cell Theory)

विषाणु जो कि एक पूर्ण परजीवी (Obligate Parasite) है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि किसी सजीव कोशिका में प्रवेश करने से पूर्व यह क्रिस्टल (Crystal) अणु के समान निर्जीव होता है, जबकि सजीव कोशिका में प्रवेश करते ही यह वृद्धि, प्रजनन जैसे सजीवों के गुण दर्शाता है।

## कोशिका की आकृति एवं माप (Shape & Size of Cell)

कोशिकाओं की संख्या, आकृति एवं माप में विविधता होती है, जिसका उल्लेख निम्नलिखित है—

- कोशिकाओं की आकृति (Shape) गोलाकार (Round), घनाकार (Cuboidal), लंबी (Rod Shaped) अथवा शाखित (Branched) हो सकती है।
- अब तक ज्ञात सूक्ष्मतम कोशिका (Smallest Cell) PPLLO (Pleuro Pneumonia like Organisms) अथवा माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम (Mycoplasma Gallisepticum) है, जो लगभग  $0.3 \text{ माइक्रोमीटर}$  ( $10^{-7} \text{ मी.}$ ) है।
- शुतुरमुर्ग का अंडा सर्वाधिक बड़ी कोशिका है, जिसका व्यास 6 इंच (With Shell) होता है।

**एक कोशिकीय जीव (Unicellular Organisms):** वे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका का ही बना होता है, जैसे— अमीबा, पैरामीशियम।

3.1 पादप ऊतक  
3.2 जंतु ऊतक

3.3 रुधिर का संयोजन  
3.4 त्वचा


ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है, जिनका उद्भव एक ही से होता है तथा उनके कार्य भी प्रायः समान होते हैं। अधिकांश ऊतकों का आकार एवं आकृति एक समान होती है अर्थात् एक समान आकृति वाली वे कोशिकाएँ जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं।

शरीर का प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के एक विशेष समूह द्वारा किया जाता है अर्थात् शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य, एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह ऊतक कहलाते हैं, जैसे- पौधों ऊतक, रक्त इत्यादि।

पौधों और जंतुओं के कार्य एवं संरचना में अंतर के कारण उनके ऊतकों में भी स्पष्ट अंतर होता है। चूँकि पौधे गति नहीं करते बल्कि संरचनात्मक दूढ़ता के साथ स्थिर रहते हैं, अतः उनके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं तथा उन्हें संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। उल्लेखनीय है कि ऐसे अधिकांश ऊतक मृत होते हैं, लेकिन जीवित ऊतकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। इसके विपरीत जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं।

हम जानते हैं कि पौधों की वृद्धि जीवन भर होती रहती है, लेकिन जंतुओं में एक निश्चित उम्र के बाद वृद्धि नहीं होती है। इसके अलावा पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है।

### 3.1 पादप ऊतक (Plant Tissue)




#### विभज्योतक ऊतक (Meristematic Tissue)

इनका मुख्य कार्य कोशिका विभाजन द्वारा निरंतर नई कोशिकाओं का निर्माण करना है। कोशिकाएँ विभाजित होकर पौधों की लंबाई और मोटाई को बढ़ाने में सहायक होती हैं।

अवस्थिति के आधार पर विभज्योतक ऊतक को तीन भागों में विभाजित किया गया है:

- शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक (Apical Meristematic Tissue)
- अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक (Intercalary Meristematic Tissue)
- पाश्व विभज्योतक ऊतक (Lateral Meristematic Tissue)



4.1 पोषण की विधियाँ

4.2 भोजन के अवयव

जीवों में सभी आवश्यक पोषक पदार्थों का अंतर्ग्रहण जो कि उनकी वृद्धि, विकास एवं रख-रखाव तथा सभी जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिये आवश्यक है, पोषण कहलाता है। ये आवश्यक पोषक पदार्थ आहार से प्राप्त किये जाते हैं।

## 4.1 पोषण की विधियाँ (*Mode of Nutrition*)

जीवधारियों में पोषण की भिन्न-भिन्न विधियाँ पाई जाती हैं। खाद्य प्राप्ति के आधार पर जीवधारियों को दो समूहों में बँटा जाता है:

(A) स्वपोषी (Autotroph)

(B) विषपोषी/परपोषी (Heterotroph)

### स्वपोषी (Autotroph)

केवल पादप ही अपने परिवेश में उपस्थित जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज से अपना भोजन बनाते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाता है तथा ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं।

स्वपोषी दो प्रकार के होते हैं— प्रकाश संश्लेषी एवं रसायन संश्लेषी।

- **प्रकाश संश्लेषी:** इस विधि में पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में  $\text{CO}_2$  के अतिरिक्त जल एवं कुछ अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है।
- **रसायन संश्लेषी:** यदि स्वपोषी अपना भोजन रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करके तैयार करते हैं तो उसे रसायन संश्लेषी कहते हैं।
- **कीटभक्षी पादप:** ये पादप कीटों का भक्षण करते हैं। इनकी पत्तियाँ घड़ेनुमा आकृति में बनी होती हैं, जिसमें अनेक रोम होते हैं। जब कीट इन रोमों में फँस जाता है तो घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा इनका पाचन होता है। ये पौधे अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं तथा जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिये ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं। कीटभक्षी पादप मुख्यतः दार्जिलिंग, नैनीताल एवं कश्मीर में पाए जाते हैं। ये अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा बनाते हैं। उदाहरण— वीनस फ्लाई ट्रैप, सनद्यू, घटपर्णी (Pitcher Plant)।

### घटपर्णी (Pitcher Plant)

- घटपर्णी मेघालय की खासी पहाड़ियों में पाया जाने वाला एक कीटाहारी पादप होता है। इसकी कुछ अन्य प्रजातियाँ भी हैं, जैसे— हिमाचल प्रदेश में बोटलर वर्ट, अमेरिका में वीनस फ्लाई ट्रैप तथा ब्लैडरवर्ट नामक कीटाहारी या मांसाहारी पौधा भारत के अधिकांश जलाशयों में पाया जाता है।
- ये पौधे सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया-विधि से ही अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं, जहाँ मिट्टी अम्लीय या दलदली होती है। इस तरह की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है।
- ये पौधे इसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिये तथा अपने वृद्धि और विकास को बनाए रखने के लिये कीटाहारी या मांसाहारी हो जाते हैं। इन्हीं कीटों को मारकर ये नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं।
- इन पौधों की बनावट अत्यंत सुंदर होती है, जिससे कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं और जैसे ही कीट इन पुष्पों पर बैठते हैं इन पौधों के शिकार करने वाले अंगक सक्रिय हो जाते हैं। इन अंगकों में एक प्रकार का पाचक एंजाइम पाया जाता है। जो कीटों को गला देते हैं, जिससे पौधों को नाइट्रोजन की प्राप्ति हो जाती है।

## अध्याय 5

# मानव शरीर के तंत्र (Systems of Human Body)

5.1 पाचन तंत्र  
5.2 श्वसन तंत्र  
5.3 परिसंचरण तंत्र

5.4 मानव कंकाल  
5.5 मानव प्रजनन तंत्र  
5.6 उत्सर्जन तंत्र

5.7 तंत्रिका तंत्र  
5.8 प्रमुख ग्रंथियाँ एवं इनसे होने वाले स्राव (हॉर्मोन एवं एंजाइम)

मानव शरीर के तंत्र के अंतर्गत उन सभी अंगों का अध्ययन किया जाता है, जिनके माध्यम से मानव शरीर का संपूर्ण जीवन चक्र सफलतापूर्वक संचालित होता है। इनमें प्रमुख हैं— पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, प्रजनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र आदि। इसके अतिरिक्त इसमें रुधिर के संयोजन के साथ-साथ मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख ग्रंथियाँ व इनसे होने वाले स्रावण (हॉर्मोन एवं एंजाइम) का भी अध्ययन किया जाता है।

## 5.1 पाचन तंत्र (*Digestive System*)

मनुष्य के पाचन तंत्र में सम्मिलित अंगों को दो मुख्य भागों में बँटा गया है:

- आहार नाल
- सहायक पाचन ग्रंथियाँ

### आहार नाल (*Alimentary Canal*)

यह एक लंबी व सतत नलिका है, जो मुख (Mouth) से गुदा (Anus) तक फैली हुई होती है। मनुष्य की आहार नाल लगभग 30 फीट लंबी होती है, जो निम्नलिखित भागों में बँटी रहती है—

- मुखगुहा
- ग्रासनली
- छोटी आँत
- गुदा-द्वार
- ग्रसनी
- आमाशय
- बड़ी आँत

### मुखगुहा (*Buccal Cavity*)

मनुष्य का मुख एक दरार की भाँति होता है, जो बाहर गालों तथा होंठों और अंदर मसूड़ों (Gums) व दाँतों से घिरा रहता है।

- मुखगुहा में अंदर की ओर क्षैतिज भाग को तालू (Palate) कहा जाता है। तालू मुखगुहा तथा नासागुहा को अलग-अलग करता है।
- यूवुला (Uvula) एक मुलायम 'V' आकार की रचना है, जो मुलायम तालू से नीचे की तरफ लटकी रहती है।
- मुखगुहा के फर्श पर एक माँसल मोटी रचना पाई जाती है, जिसे जीभ (Tongue) कहते हैं। जीभ मुखगुहा से एक संरचना फ्रीनुलम (Frenulum) के द्वारा जुड़ी रहती है।
- स्वाद का अनुभव करने के लिये जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएँ (Taste Buds) पाई जाती हैं जो मीठा, खट्टा, नमकीन व कड़वे स्वाद का अनुभव करवाती हैं।

**लार ग्रंथियाँ (Salivary Glands):** मनुष्य में तीन जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो निम्नलिखित हैं:

- अधोजिह्वा (Sublingual Gland): यह जिह्वा के दोनों ओर एक-एक उपस्थित होती है, जो बथोलिन नलिका/रिविनस नलिका द्वारा खुलती है।
- अधोमैक्सिला (Submaxillary Gland): यह जबड़े के मध्य में मैक्सिला अस्थि के दोनों ओर एक-एक उपस्थित होती है, जो व्हार्टन नलिका (Wharton's Duct) द्वारा खुलती है।
- अधोहनु (Parotid Gland): यह दोनों कानों के नीचे एक-एक उपस्थित होती है और यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है।

### लार (*Saliva*)

- सभी लार-ग्रंथियाँ लार स्रावित करती हैं, जिसमें 99% जल तथा 1% पाचक एंजाइम्स-टायलिन (Ptylin) व लाइसोजाइम (Lysozyme) होते हैं।

## अध्याय 6

# मानव स्वास्थ्य और रोग (Human Health and Diseases)

6.1 स्वास्थ्य	6.4 प्रमुख बीमारियाँ	6.7 स्वास्थ्य संबंधी समसामयिक मुद्दे
6.2 संक्रामक रोग	6.5 स्वास्थ्य नीतियाँ एवं कार्यक्रम	
6.3 असंक्रामक रोग	6.6 अन्य पहल	

## 6.1 स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य मूलरूप से जीवित व्यक्तियों की कार्यात्मक एवं उपापचयी क्षमता दर्शाता है। यह व्यक्ति के शरीर और मन की एक सामान्य दशा है जो बीमारी, चोट और दर्द से रहित होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1946 में स्वास्थ्य की विस्तृत परिभाषा दी। इस परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुख की वह दशा है, जो रोग या रुग्णता से मुक्त रहे। इस परिभाषा के अनुसार, किसी व्यक्ति का स्वस्थ होना केवल उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि उसके मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहने पर ही निर्भर करता है।

स्वास्थ्य की यह व्यापक परिभाषा प्रचलित धारणा ‘स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है’ को पुष्ट करती है।

स्वास्थ्य के दो अवयव हैं:

(i) दैहिक स्वास्थ्य (Physical Health)

**दैहिक स्वास्थ्य (Physical Health):** दैहिक स्वास्थ्य से तात्पर्य स्वस्थ शरीर से होता है। यह शारीरिक अभ्यास, अच्छे आहार और पर्याप्त आराम करने से विकसित होता है। शारीरिक स्वास्थ्य व्यक्ति द्वारा सभी कार्य करने का आधार है। शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिये उचित पोषण, शारीरिक वज्ञन नियंत्रण, मादक पदार्थ आदि व्यसनों से दूर रहना तथा पर्याप्त नींद लेना आदि कारक महत्वपूर्ण होते हैं।

**मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health):** मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक और संवेगात्मक रूप से स्वस्थ रहने की दशा है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य वाले व्यक्ति में मानसिक बीमारियाँ नहीं होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार “मानसिक स्वास्थ्य वैयक्तिक रूप से सुख की ऐसी अवस्था है, जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का अनुभव करता है। वह अपने दैनिक जीवन के तनावों का सामना करने की क्षमता रखता है।”

यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि मानसिक बीमारियों से मुक्ति मात्र ही अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की सूचक नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति द्वारा प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीने, जीवन की प्रतिकूल स्थिति से निकलने, अपनी उपलब्धि, प्रेरणा को उन्नत करने, परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता का भी सूचक होता है।

परंतु विभिन्न आंतरिक-बाह्य कारणों का प्रभाव भी हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। शारीरिक-मानसिक विकृतियाँ जन्म लेती हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रहन-सहन व्यवस्था, पर्यावरणीय समस्याओं व प्रदूषण के कारण स्वस्थ जीवन के लिये आवश्यक वातावरण बनाए रखना एक गंभीर समस्या है।

## स्वास्थ्य के निर्धारक (Determinants of Health)

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्नलिखित कारक हमारे स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को प्रभावित करते हैं-

- निवास स्थान
- आस-पास का वातावरण
- आनुवंशिक स्थिति
- आय
- शिक्षा स्तर
- मित्रों एवं परिवार के साथ हमारा संबंध

### परिभाषिक शब्द

- **स्वास्थ्य त्रिकोण (Health Triangle):** स्वस्थ रहने और स्वास्थ्य को उन्नत करने के लिये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का संयोग महत्वपूर्ण होता है। इसे सम्मिलित रूप में स्वास्थ्य त्रिकोण कहा जाता है।

## अध्याय 7

# आनुवंशिकी एवं जैव विकास (Genetics and Biological Evolution)

### 7.1 मेंडल के आनुवंशिकी के नियम

जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उत्तरोत्तर पीढ़ियों में होने वाली विभिन्न लक्षणों की वंशागति (Heredity) व विभिन्नताओं (Variations) का अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकी कहलाती है।


### 7.1 मेंडल के आनुवंशिकी के नियम (Mendel's Law of Genetics)

वंशागति के नियमों का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, अतः इन्हें आनुवंशिकी का जनक (Father of Genetics) कहा जाता है।

मेंडल, जो कि ऑस्ट्रिया में एक पुजारी थे, ने आनुवंशिकी संबंधी अपने प्रयोग मटर के पौधे (Pea Plant) पर किये। मेंडल को जीन व क्रोमोसोम की संरचना के संबंध में कोई ज्ञान नहीं था।

मेंडल ने सर्वप्रथम एक जोड़ी विपरीत गुणों और फिर दो जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरीय क्रॉस तथा द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं।

मेंडल द्वारा अध्ययन किये गए मटर के पौधे के विपर्यास विशेषक		
लक्षण (Character)	प्रभावी (Dominant)	अप्रभावी (Recessive)
पुष्प का रंग	बैंगनी (Violet)	उजला (White)
पुष्प की स्थिति	अक्षीय (Axial)	अंत्य (Terminal)
बीज का रंग	पीला (Yellow)	हरा (Green)
बीज का आकार	गाल (Round)	झुरादार (Wrinkled)
फली का आकार	फूला हुआ सिकुड़ी हुई (Inflated) (Constricted)	
फली का रंग	हरा (Green)	पीला (Yellow)
पौधे की लंबाई	लंबा (Tall)	बौना (Dwarf)



### एक संकरीय क्रॉस (Monohybrid Cross)

यह मेंडल द्वारा किया गया सरलतम क्रॉस है, जिसमें उन्होंने केवल एक लक्षण की वंशागति का ही अध्ययन किया। मेंडल ने मटर की दो प्रजातियों लंबे (Tall) व बौने (Dwarf) के मध्य क्रॉस कराया तथा पाया कि  $F_1$  पीढ़ी में सभी पौधे

8.1 मृदा, जल व पादप संबंध  
8.2 प्रकाश संश्लेषण

8.3 पौधों में खनिज पोषण  
8.4 पादपों में जनन

8.5 पादप हाँसेन  
8.6 विभिन्न पादप अंग

वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पौधों में होने वाली जैविक क्रियाओं (Life Activities) का अध्ययन करते हैं, पादप कार्यकी (Plant Physiology) कहलाती है। स्टीफन हेल्स को 'पादप कार्यकी का जनक' (Father of Plant Physiology) कहा जाता है।

## 8.1 मृदा, जल व पादप संबंध (Soil, Water and Plant Relations)


पौधों का जीवन मृदा (Soil) व जल के संबंध पर ही निर्भर होता है। इसके अंतर्गत हम विसरण (Diffusion), परासरण (Osmosis), वाष्पोत्सर्जन (Transpiration), रसारोहण (Ascent of Sap) आदि क्रियाओं का अध्ययन करते हैं।

**विसरण (Diffusion):** द्रव्य के कणों का अपनी गतिज ऊर्जा के कारण अधिक सांदर्भ (Higher Concentration) से कम सांदर्भ (Lower Concentration) के क्षेत्र की ओर गति करना विसरण कहलाता है। पौधों में जल संचरण में विसरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

**परासरण (Osmosis):** कम सांदर्भ वाले विलयन से जल का अधिक सांदर्भ वाले विलयन की ओर अर्द्ध-पारगम्य झिल्ली से होकर गति करना परासरण कहलाता है। परासरण क्रिया में विलायक (Solvent) अणु अधिक मुक्त ऊर्जा (Free Energy) वाले क्षेत्र से कम मुक्त ऊर्जा वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं।

### अर्द्ध-पारगम्य झिल्ली (Semipermeable Membrane)

यह एक ऐसी झिल्ली होती है, जिसके आर-पार कुछ निश्चित अणु ही आ-जा सकते हैं, सभी नहीं। ऐसी झिल्ली अर्द्ध-पारगम्य झिल्ली (Semipermeable Membrane) कहलाती है। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली (Cell Membrane or Plasma Membrane) अर्द्ध-पारगम्य झिल्ली होती है जो कुछ विशिष्ट पदार्थों को ही अपने आर-पार आने-जाने देती है।



## डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- विविध रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : [www.drishtiIAS.com](http://www.drishtiIAS.com)

E-mail : [online@groupdrishti.com](mailto:online@groupdrishti.com)



641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

Phones : 8750187501, 011-47532596